



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

बीमार महिला को बाद उपचार उनके परिजनों के सकुशल किया गया सुपुर्द

दिनांक:-19.09.2021

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस को मानवीय दृष्टिकोण से बालकों/महिलाओं/बुजुर्गों/जनसामान्य की तत्परतापूर्वक हरसम्भव सहयोग एवं विधिक सहायता हेतु निर्देशित किया गया है।

कल दिनांक 18.09.2021 को थाना संदना पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लौली से धर्मापुर मार्ग पर एक अज्ञात 30 वर्षीय महिला बीमार/बदहवास हालत में अकेले बैठी हुई है। प्राप्त सूचना को तत्काल संज्ञान में लेकर प्रभारी निरीक्षक संदना मय महिला पुलिस बल मौके पर पहुँचे तथा उक्त महिला से उसका नाम/पता तथा उसके विषय में पूँछा तो वह बीमार प्रतीत हो रही थी तथा कुछ भी बता पाने में असमर्थ रही। महिला को तत्काल उपचार/स्वास्थ्य परीक्षण हेतु महिला आरक्षी के साथ जरिए 108 एम्बुलेन्स सीएचसी गोंदलामऊ भेजा गया। जहाँ से महिला उप निरीक्षक की निगरानी में जिला चिकित्सालय भेजकर समुचित उपचार कराया गया। उक्त महिला की पहचान तथा समस्त बिन्दुओं की जानकारी हेतु क्षेत्राधिकारी मिश्रिख के नेतृत्व में टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में महिला की पहचान श्रीमती सुशीला उर्फ सीमा पत्नी श्री बनवारी निवासी ग्राम गनेशपुर थाना संदना जनपद सीतापुर के रूप में हुई। महिला के परिजनों से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वह भी महिला की तलाश कर रहे हैं। उपचार पश्चात स्वस्थ होने पर श्रीमती सुशीला उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह बीमार चल रही थी तथा कल दोपहर घर से निकली थी। रास्ते में तबियत अत्यधिक खराब होने पर सड़क किनारे बैठ गयी तथा बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। वहाँ पर मौजूद स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस को इस सम्बन्ध में सूचना दी गयी। पुलिस द्वारा अस्पताल भेजकर उनका इलाज करवाया गया। श्रीमती सुशीला उपरोक्त को स्वस्थ होने के पश्चात चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर सकुशल घर पहुँचाया गया। परिजनों द्वारा पुलिस टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।